



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2009/माघ 3, 1930

No. 184]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2009/MAGHA 3, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2009

सं. 82 (आरई-2008)/2004—2009

का.आ. 297(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण, 2004—2009 की अनुसूची-I (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. “निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची I के आई टी सी कोड 9501, 9502, 9503 के अधीन आने वाले चीन से ‘खिलौनों’ का आयात, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक छः महीने के लिए निषिद्ध है।”

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/0053/एएम 01/पी सी-2(ए)]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2009

No. 82 (RE-2008)/2004—2009

S.O. 297(E).— In exercise of powers conferred by Section 5, read along with Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, also read along with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby amends Schedule-I (Imports) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—2009 as under :—

1. “Import of ‘Toys’ from China appearing under ITC Codes 9501, 9502, 9503 of Schedule-I of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items is prohibited for six months with immediate effect and until further orders.”

2. This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/0053/AM 01/PC-2(A)]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.